



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 14, 1981/चैत्र 24, 1903

No 9]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 14, 1981/C. IAITRA 24, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1981

का०नि०प्र० 13 क.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मध्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, मशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा (संशोधन) नियम 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 की नौमरी अनुसूची में सहायक (समूह "ख" अराजपदित) पद के सम्बन्ध में, अनुसूची 3 में "अधिष्ठायी रिक्तियों" शीर्षक के नीचे

(i) खण्ड (क) में, पहले परन्तुक के पश्चात् और उसके नीचे के पदों के पूरे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—  
परन्तुक यह भी कि यदि यह पूर्वोक्त किसी वर्ग में रिक्तियों की भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो मशस्त्र बलों के कोटे में न भरी गई रिक्तियाँ खण्ड (ख) में उपरोक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों के अस्थायी अधिकारियों की अधिष्ठायी नियम से नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।

(ii) खण्ड (ख), और उसके नीचे के टिप्पणों के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—

"(ख) किसी वर्ग में शेष रही अधिष्ठायी रिक्तियाँ, जिनके प्रत्येक मशस्त्र बलों के कोटे में न भरी गई रिक्तियाँ भी हैं, ऐसे के ऐसे अस्थायी अधिकारियों की, जिन्होंने परीक्षा का सहायक समाधानप्रद रूप में पूरी कर ली है, अयोग्य होने के कारण अस्वीकार कर दिए जाने के प्रतीत रहने हुए, ज्येष्ठता के क्रम में अधिष्ठायी नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।"

(iii) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतर्गोचर किया जाएगा, अर्थात्—

"(ग) खण्ड (क) और (ख) में किसी बात के होते हुए भी, 30 जून, 1980 को सहायक की श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए ऐसी आरक्षित अधिष्ठायी रिक्तियाँ, जिन पर उस तारीख तक कोई भी सीधे भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है, और ऐसी अधिष्ठायी रिक्तियों की पचास प्रतिशत संख्या मशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा (संशोधन) नियम, 1981 के आरम्भ की तारीख के पश्चात् उस श्रेणी के ऐसे अस्थायी अधिकारियों की, जिन्होंने परीक्षा का सहायक समाधानप्रद रूप में पूरी कर ली है, अयोग्य होने के कारण अस्वीकार कर दिए जाने के अधीन रहने हुए, ज्येष्ठता

के क्रम में ही गई प्रविष्टियों नियुक्तियों द्वारा भरी जा सकेंगी।”

टिप्पण : 30 जून, 1980 को सीधी भर्ती के लिए आरक्षित अधिष्ठायी रिक्तियों की संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए, सहायक श्रेणी परीक्षा, 1979 की मार्फत भरी गई रिक्तियों को अपवर्जित किया जाएगा।”

(iv) इस प्रकार अंतःस्थापित खण्ड (ग) के पञ्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(घ) खण्ड (क) और (ख) के उपबंधों के अनुसार अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए गए अधिकारियों की मापेक्ष ज्येष्ठता विभागीय प्रोन्नतों और सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के बीच रिक्तियों के चक्रानुक्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जो कि प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटों पर आधारित होगी :

परन्तु किसी वर्ष में सीधे भर्ती की ऐसे रिक्तियों के लिए, जिनके लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, उस श्रेणी में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति उस वर्ष में नियुक्त सीधे भर्ती किए गए अंतिम व्यक्ति से या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और विभागीय प्रोन्नतों के लिए आरक्षित कोटों के होने हुए भी एक साथ नीचे रखे जायेंगे।

टिप्पण (1) खण्ड (ग) के उपबंधों के अनुसार अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों की आपस में ज्येष्ठता उस क्रम में समनुदिशित हो जाएगी जिसमें वे इस प्रकार नियुक्त किए गए हैं और सहायक की श्रेणी में नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्तियों की सहायक श्रेणी परीक्षा 1979 की मार्फत सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के ऊपर एक साथ रखा जाएगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा निर्मुक्त आपात कमीशंड आफिसरों और अत्यावधि सेवा के नियमित कमीशंड आफिसरों के लिए आरक्षित कोटा के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) (क) की अधिष्ठायी रिक्तियों सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा की उच्च श्रेणी लिपिक श्रेणी से ज्येष्ठता के आधार पर अयोग्य होने के कारण अस्वीकार कर दिए जाने के अधीन रहते हुए प्रोन्नति द्वारा अस्थायी रूप से भरी जा सकेंगी। ऐसी प्रोन्नतियां तब पर्यवसित की जायेंगी जब अधिष्ठायी रिक्तियों की भरने के लिए आयोग के नाम निर्दिष्ट उपलब्ध हो जायेंगे।

[फा०सं० ए/24333/सीएओ/आर-2]

सी०वी० नारायणन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th April, 1981

**S.R.O. 13(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in consultation with the UPSC, the President hereby makes the following rules further to amend the Armed Forces Headquarters Civil Service Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Armed Forces Headquarters Civil Service (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Third Schedule to the Armed Forces Headquarters Civil Service Rules, 1968, against the post of Assistant (Group 'B', Non-Gazetted), in column 3, under the heading "Substantive vacancies",—

(i) In clause (a), after the first proviso and before the expression thereunder the following proviso shall be added, namely :—

“Provided also that if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies in any year by direct recruitment as aforesaid, the unfilled vacancies in the direct recruitment quota shall be filled by the substantive appointment of temporary officers of the Grade of Assistant in the manner indicated in clause (b).”;

(ii) for clause (b) and notes thereunder, the following clause shall be substituted, namely :—

“(b) The remaining substantive vacancies including unfilled vacancies in the direct recruitment quota in any year shall be filled by substantive appointment in the order of seniority of temporary officers of the Grade, who have completed the period of probation satisfactorily, subject to the rejection of the unfit.”;

(iii) after clause (b) as so substituted, the following clause shall be inserted, namely :—

“(c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), the substantive vacancies reserved for direct recruitment in the Grade of Assistant as on the 30th June, 1980, against which no direct recruits have been appointed till that date, plus fifty per cent of the number of such substantive vacancies, may be filled by substantive appointments made after the date of commencement of the Armed Forces Headquarters Civil Service (Amendment) Rules, 1981, in the order of seniority of temporary officers of the Grade, who have completed the period of probation satisfactorily, subject to the rejection of the unfit.

Note : For the purpose of calculating the number of substantive vacancies reserved for direct recruitment as on 30th June, 1980, vacancies filled through the Assistants' Grade Examination, 1979 shall be excluded.”;

(iv) after clause (c) as so inserted, the following clause shall be inserted, namely :—

“(d) The relative seniority of the officers appointed substantively in accordance with the provisions of clauses (a) and (b) will be determined according to the rotation of vacancies between departmental promotees and direct recruits which shall be based on the quotas of vacancies reserved for promotion and direct recruitment:

Provided that persons appointed substantively to the Grade in any year against direct recruitment vacancies for which direct recruits are not available shall be placed en bloc below the last direct recruit appointed in that year, irrespective of the quotas reserved for direct recruits and departmental promotees.

Note :— (1) Persons appointed substantively in accordance with the provisions of clause (c) shall be assigned seniority inter se in the order in which they are so appointed and such persons shall be placed on bloc above the direct recruits of the Assistants' Grade Examination, 1979 appointed in the Grade of Assistant.

(2) Reservation of vacancies against the quota reserved for direct recruitment, for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and released Emergency Commissioned officers and Short Service Regular Commissioned officers shall be in accordance with the rules and orders issued by the Government from time to time.

(3) Substantive vacancies at (a) may be filled temporarily by promotion from Upper Division Grade of the Armed Forces Headquarters Clerical Service on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit. Such promotions shall be terminated when the nominees of the Commission become available to fill the substantive vacancies.”

[File No. A/24333/CAO/R-II]

C. V. NARAYANAN, Jt. Secy.(E)